

# नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर (छ.ग.)

( मई 2017 )





डा अजय तिर्की महापौर

प्रिय नगरवासियों ,

कोई भी संस्था के सफल संचालन में वहां के नगरवासियों का सहयोग आवश्यक होता है और नगर में चलने वाले प्रत्येक कार्यों की पारदर्शिता एवं सुगमता मेरी प्राथमिता रही है इसी तारत्वय में इस वेब साईट का निर्माण कराया गया है मेरा नगर वासियों से अपील है कि नगर में चल रहे स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत हो रहे शौचालयों का निर्माण अपने घरों में करा कर सहयोग प्रदान करें साथ ही आप सभी से अपील है कि समस्त कचरे का भुगतान समय पर करे, जल को व्यर्थ ना बहने दे, प्लास्टिक कैंरी बैगों का इस्तेमाल ना करे एवं कचरो में निपटान में सहयोग कर नगर निगम को एक मजबूत निगम बनाने में सहयोग प्रदान करे । अतः मैं आप के सभी कार्यों को तत्परता सुगमता से करने के वादे के साथ,आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप स्वस्थ रहे निरोग रहे इसी आशा के साथ आपका।

डा अजय तिर्की महापौर

## श्रीमति सूर्य किरण तिवारी अग्रवाल (सा.प्र.से.)

आयुक्त

स्वच्छ भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्वोच्च कार्यों का प्रथम राष्ट्रीय सोपान है, और यह गर्व का विषय है कि छग के आदिवासी अंचल सरगुजा में अवस्थित नगर निगम अम्बिकापुर एवं अम्बिकापुर के सम्मानित नागरिकों ने इस सपने को साकार करने में सक्रिय भूमिका निभाई है, एवं उल्लेखनिय कार्य किया है, एस एल आर एम अम्बिकापुर माडल शत प्रतिशत डोर टु डोर संग्रहण एवं आजीविका मिशन का अनुपम उदाहरण है, इसी का परिणाम है कि इस श्रेष्ठ कार्य ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर इस अंचल को गौरवान्वित किया है, इस कार्य की कार्यस्थिती इस बात से ही प्रमाणित हो जाती है कि आज यह माडल छग के समस्त नगरीय निकायों के लिये मिशन क्लीन सिटी के रूप में प्रेरणा स्रोत बन चुका है, एवं पुष्पित एवं पल्लवित हो रहा है, इसके साथ ही अम्बिकापुर निगम खुले में शौच मुक्त नगर निगम का दर्जा प्राप्त कर अपने इस कार्य में सफलता का एक और पायदान कायम किया है

सूर्य किरण तिवारी अग्रवाल

**दिनांक 4 मई 2017**

### **निगम का दमकल जुन मे होगा होम गार्ड के हवाले**

नगर निगम के दमकल विभाग के अमले को अगामी जुन-जुलाई महीने तक होमगार्ड के हवाले करने की तैयारी शासन व प्रशासन स्तर पर जोर-शोर से चल रही है प्रारंभिक चरण मे निगम के भवन मे ही दमकल का काम-काज आगामी 6 महीने तक संचालित होगा 6 महीने बाद दमकल विभाग मे कार्यरत निगम के कर्मचारियों को होम गार्ड मे शामिल किया जायगा या नही इसमे अभी संशय की सिथति बनी हुई है अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध मे शासन द्वारा जारी होने वाले दिशा निर्देश के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी

**दिनांक 9 मई 2017**

### **मैरिन डाइव के दिन फिरगे शुरू होगी बोटिंग**

वर्षो से था उपेक्षित अब होगा सौदर्योकरण कलेक्टर ने निगम प्रशासन को कार्ययोजना बनाने का दिया निर्देश वर्षो से उपेक्षित पडे मैरिन डाइव के दिन फिरने वाले है मैरिन डाइव को स्वच्छ व सुन्दर सैर-सर्पोट की जगह के रूप मे विकसित करने की जवाबदारी निगम प्रशासन को दी गई है कलेक्टर ने मैरिन डाइव के सौदर्योकरण के लिए अवश्यक कारवाई करने के निर्देश दिया है

**दिनांक 9 मई 2017**

### **14 तालाबो मे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेट शीघ्र**

महिला समुहो की आर्थिक उन्नति मे मददगार साबित होगा बतख पालन दो लाख की आबादी वाले शहरो की श्रेणी मे स्वच्छता क्षेत्र मे देश मे पहला स्थान प्राप्त करने वाले अम्बिकापुर शहर के 14 तालाबो मे अब लिक्विड वेस्ट मैनेजमेट के तहत बतख पालन किया जाएगा वर्तमान मे सिर्फ मैरिन डाइव तालाब मे ही बतख पालन किया जा रहा है मटन मछली मार्केट से निकलने वाले अपशिष्ट इन बतखो का आहार बनते है बतखो से मिलने वाले अंडे से आय होती है एक निश्चित समय के बाद इन बतखो को भी बेचा जाता है

**दिनांक 24 मई 2017**

## नव निर्माण से पहले पाईप लाइन व खंभे होंगे व्यवस्थित

लगभग 98 करोड की लागत से अबिकापुर के रिंगरोड का निर्माण कार्य अगले माह से आरंभ हो जाने की संभावना है निर्माण एजेसी छत्तीसगढ राज्य सडक विकास निगम द्वारा इसी माह की 26 तारीख को रिंगरोड का टेडर खोला जाएगा इसके बाद प्रकिया पुरी कर अगले माह से काम शुरू कराने की संभावना को देखते हुए रिंगरोड पर पाइप लाइन व बिजली खंभो को व्यवस्थित करने का काम अतिशीघ्र शुरू होगा ताकि रिंगरोड के नवनिर्माण मे किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो

## नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर

सम्पर्क हेतु नंबर –

निदान 1100 –

सफाई, पानी, सड़क बत्ती, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संबंधित शिकायत दर्ज करवाने संपर्क करे.

कार्यालय का पता –

नगर पालिक निगम प्रशासनिक भवन, केदारपुर पानी टंकी  
अम्बिकापुर (छ.ग.)